

विषय-सूची

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		vii
कार्यकारी सारांश		xi
अध्याय I: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विहंगावलोकन		
रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा	1.1	1
रा.रा.क्षे. दिल्ली की जनसांख्यिकी	1.1.1	1
रा.रा.क्षे. दिल्ली की अर्थव्यवस्था	1.1.2	2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.	1.1.2.1	2
स.रा.मू.व. में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2.2	5
वित्त का आशुचित्र	1.1.3	7
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	1.1.4	9
सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र	1.1.5	10
रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि	1.2	11
राजस्व प्राप्तियां	1.2.1	11
पूंजीगत प्राप्तियां	1.2.2	22
व्यय	1.2.3	23
राजस्व व्यय	1.2.3.1	27
पूंजीगत व्यय	1.2.3.2	33
आकस्मिकता निधि	1.3	40
राजकोषीय संधारणीयता	1.4	40
लोक देयता प्रबंधन	1.4.1	41
देयता प्रोफाइल: घटक	1.4.1.1	42
ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	1.4.1.2	43
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न	1.4.2	43
ऋण स्थिरता विश्लेषण	1.4.3	44
राजकोषीय स्थिरता के मार्ग	1.4.4	47
रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व में सुधार	1.4.5	48

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
व्यय पक्ष से संबंधित मुद्दे	1.4.6	50
निष्कर्ष	1.5	51
सिफारिशें	1.6	53
अध्याय II: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	55
बजट अनुमान और अपेक्षा और वास्तविक के बीच अंतर	2.2	56
बजट लक्ष्यप्राप्ति	2.3	58
विनियोग लेखे	2.4	60
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया	2.5	61
अतिरिक्त व्यय और उसका नियमितीकरण	2.5.1	61
अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.5.2	62
निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	2.5.3	63
अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण	2.5.4	63
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्तपोषण	2.5.5	65
त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना	2.5.6	66
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में चयनित केंद्र प्रयोजित योजनाओं का कार्यान्वयन	2.6	69
एकल नोडल एजेंसी	2.6.1	71
एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श	2.6.2	72
चयनित अनुदान की समीक्षा ('अनुदान सं. 11- शहरी विकास और लोक निर्माण')	2.7	73
आकस्मिकता निधि	2.8	75
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.8.1	75
वाउचर लेखापरीक्षा अनियमितताएं	2.9	77
निष्कर्ष	2.10	81

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
सिफारिशें	2.11	82
अध्याय III: वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति		
सरकार की अभुक्त देयताएं	3.1	83
प्रतिदाय के लंबित मामले	3.1.1	83
सरकारी खातों के बाहर निधियां	3.2	84
दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	3.2.1	84
उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) जमा करने में विलंब	3.3	86
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	3.4	89
व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते	3.5	93
लघु शीर्ष-800 का प्रचालन	3.6	96
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.7	99
स्वायत्त निकायों के लेखाओं की प्रस्तुति	3.8	99
पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी)	3.9	101
वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां	3.10	103
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.11	108
निष्कर्ष	3.12	108
सिफारिशें	3.13	109

विषय	परिशिष्ट सं.	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट		
रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े	1.1	111
वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार	1.2	116
31 मार्च 2025 तक रा.रा.क्षे.दि.स. की वित्तीय स्थिति का सारांश	1.3	120
ऐसे मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 2 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.1	121
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोग (प्रत्येक मामले में ₹ 2 करोड़ या अधिक)	2.2	122
‘अनुदान सं.11- शहरी विकास और लोक निर्माण’ में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	2.3	124
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान	2.4	127
वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निरंतर बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान	2.5	128
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट और बचत के उपयोग की अनुदान-वार प्रतिशतता	2.6	129
बचत जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया	2.7	130
वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ‘अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण’ के अंतर्गत विभिन्न शीर्षों में निरंतर बचत (₹ 10 करोड़ से अधिक)	2.8	132
नीतिगत पहल जिनमें कोई व्यय नहीं किया गया	2.9	133
नीतिगत पहल जहाँ परिशोधित परिव्यय में संपूर्ण बजट राशि का प्रत्याहरण किया गया	2.10	137

विषय	परिशिष्ट सं.	पृष्ठ सं.
‘अनुदान सं.11-शहरी विकास और लोक निर्माण’ की बिना व्यय वाली नीतिगत पहल	2.11	140
नीतिगत पहल जहाँ ‘अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण’ के परिशोधित परिव्यय में संपूर्ण बजट राशि का प्रत्याहरण किया गया	2.12	142
अंतिम तिमाही और अंतिम महीने के दौरान शीर्ष-वार व्यय की अधिकता	2.13	144
उप-शीर्ष जहाँ मार्च 2025 में संपूर्ण व्यय किया गया	2.14	145
‘अनुदान संख्या 11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण’ में व्यय की अधिकता	2.15	146
31 मार्च 2025 तक देय, प्राप्त, समाशोधित और बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण	3.1	148
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (महा पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय)	3.2	150
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल)	3.3	151
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (लोक नायक अस्पताल)	3.4	152
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला)	3.5	153
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (पुरातत्व विभाग)	3.6	154
ऋण और अग्रिमों का बकाया	3.7	155
वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निवेश संबंधी संचयी आंकड़ों में अंतर	3.8	156
मार्च 2025 के अंत तक निवेश का विवरण	3.9	157

